#### **GRM OVERSEAS LIMITED**



Date: 20th January, 2022

To, Department of Corporate Services, Bombay Stock Exchange Limited, Ground Floor, P. J. Towers, Dalal Street Fort, Mumbai- 400001

(Scrip Code: 531449)

<u>Sub: Newspaper Advertisement- Regulation 47 of SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015</u>

In terms of SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015, please find attached herewith copies of News Papers- Jansatta (Hindi Newspaper) and Financial Express (English Newspaper) dated 20.01.2022 in which Notice of Dispatch of Postal Ballot Notice is Published and a copy of the same is available on the website of company i.e. www. Grmrice.com

This is for yours information and record.

For GRM Overseas Limited

Balveer Singh Company Secretary M. No. 59007











Registered Office 128, First Floor, Shiva Market Pitampura, Delhi 110034, India. • +91-11-4733 0330 Corporate Office 8 K.M. Stone, Gohana-

8 K.M. Stone, Gohana-Rohtak Road Village Naultha, Panipat 132145 Haryana, India • +91-972964 7000/8000 Factory

- Gohana Road (Panipat), Haryana
- Naultha (Panipat), Haryana
- Gandhidham, Gujarat

**FINANCIAL EXPRESS** 

Date of

**Demand Notice** 

Date of NPA

NOTICE TO SHAREHOLDERS (For Mandatory Transfer of Equity Shares of the Company to Investor Education and Protection Fund (IEPF))

This Notice is published pursuant to Section 124(6) or the Companies Act, 2013 read with Investor Education and Protection Fund Authority (Accounting, Audit, Transfer and Refund) Rules, 2016 read with relevant circulars and amendments thereto ("IEPF Rules"). The Company is mandated to transfer all shares in respect of which dividends have not been paid or claimed for seven consecutive years to Investor Education and Protection Fund Authority ("IEPF Authority").

The Company has communicated individually the concerned shareholders whose shares are liable to be transferred to IEPF Authority in case they do not encash any of their dividend(s), which remains unpaid / unclaimed for last seven (7) consecutive years, by the next due date of transfer i.e. April 26, 2022. The details of such shareholding including their folio numbers or DP and Client ID and number of shares due for transfer are also available on the Investors section of the Company's website www.axlesindia.com.

The concerned shareholders have been advised to make their claim for the unclaimed dividends in respect of shares held by them in writing to the Company or the Company's Registrar and Transfer Agent, M/s. Cameo Corporate Services Ltd. Subramanian Building, 1, Club House Road, Chennai 600002. Tel: 044-28460390/91/92/93/94 email ID: investor@cameoindia.com.

In case shareholders wish to claim the shares / dividend after transfer, a separate application has to be made to the IEPF Authority in Form IEPF-5, as prescribed under IEPF Rules, and the same is available along with all details at the IEPF website: www.iepf.gov.in.

For Axles India Limited C. Bharathi Place : Chennai Company Secretary Date : 20.01.2022

# Advertisemen S 0120 - 66



**OXYZO Financial Services Private Limited** Registered Office: Shop No. G-22 C (UGF) D-1 (K-84), Green Park Main, New Delhi, South Delhi- 110016 CIN: U65929DL2016PTC306174

Email: finance@oxyzo.in Website: www.oxyzo.ir

Phone: 011-41054262 Office Closure Notice

Notice is hereby given that OXYZO Financia Services Private Limited, is in process to shift its one of Offices situated at 101, First Floor Vipul Agora Mall, MG Road, Gurgaon-122002, Haryana within Three month (Max by one month) to Global Business Park, 6" Floor Tower A. Sector 26 MG Road, Gurugram, Haryana-122002, due to some operational and Maintenance issue at the office.

Please connect to Mr. Shibu Cherian, Head Administration @8860395000, in case of any

No arrangements are being made for the

depositors as the Company is NBFC-ND-SI.

OXYZO Financial Services Private Limited Brij Kishore Kiradoo

Date: January 18, 2022 Company Secretary

## **PUBLIC NOTICE**

Notice is hereby given that share certificates No. 93690 & 93694 for 200 Equity Shares of Rs.10/-(Rupees ten only) each bearing Distinctive Nos 19039453-19039552 & 19039853-19039952 of Eicher Motors Limited, having its registered office at 3rd Floor - Select Citywalk, A-3 District city Centre, Saket, New Delhi, 110017 registered in the name of Dalmia Industrial Development Ltd have been lost. Dalmia Industrial Development Ltd has applied to the company for issue duplicate certificates. Any person who has any claim in respect of the said shares certificates should lodge such claim with company within 15 days of the publication of this

notice.

financialexp.epa

Date: 19.01.2022

Place: New Delhi

पंजाब नैश्वनल बैंक 🚇 punjab national bank

Circle Sastra Centre (Lucknow West) STC, 1st Floor, Vibhuti Khand Gomtinagar Lucknow 226010) Email: cs8272@pnb.co.in

### POSSESSION NOTICE (for Immovable Property)

Whereas undersigned being the Authorized Officer of the Punjab National Bank under the Securitization and Reconstruction of Financia Assets & Enforcement of Security Interest Act, 2002, and in exercise of powers conferred under Section 13 read with the Security Interest (Enforcement) Rules, 2002, issued demand notice/s on the dates mentioned against each account calling upon the respective borrower/s to repay the amount as mentioned against each account within 60 days from the date of notice(s)/ date of receipt of the said notice(s). The borrower having failed to repay the amount, notice is hereby given to the borrower and the public in general that the undersigned

has taken possession of the property described herein below in exercise of powers conferred on him under sub-section (4) of Section 13 of Act read with Rule 8 of the Security Interest Enforcement) Rules, 2002. The borrower/s in particular and the public in general is hereby cautioned not to deal with the property/les and any dealing with the property/les will

be subject to the charge of Punjab National Bank for the amounts and interest thereon. The borrower's /guarantor's /mortgagor's attention is invited to provisions of sub-section (8) of section 13 of the Act in

respect of time available to redeem the secured assets S. Name Name of Description of the property Date of Date of Amount Name of Demand Outstanding Borrower/ Mortgaged Possession

|    | Branch | Account  | Guarantor/<br>Owner of<br>the Property  | (all the part & parcel of the property consisting of)  | Notice     | Notice     | as on date of<br>demand Notice   |
|----|--------|--|---|--|------------|------------|--|
| 1. | Unnao  | M/s Fresh<br>Milk Dairy<br>(Proprietor<br>Mrs. Rabiya<br>Parveen)        | M/s Fresh Milk Dairy (Proprietor Mrs. Rabiya Parveen) Guarantor-Mr. Jameel Ahmad 1. Owner Mrs. Rabiya Parveen  2.Owner: Mr. Jameel Ahmad S/o Mr. Ghasite & Mrs. Rabiya Parveen W/o Mr. Jameel Ahmad | 1.Property situated at Moh-Narendra Nagar Andar Nagar Palika, Pargana and Tehsil Unnao registered at S.No. 7921 on 19.09.2007, Zild no 4174, Bahi No -1. Page no, 199 to 218 at Sub Registrar Office-Sadar, Unnao in the name of Mrs. Rabiya Parveen W/o Mr. Jameel Ahmad having area 53.65 sq mt. Boundary (as per Deed): East-House of Ram Naresh, West-House of Santosh Kumar, North-Gali, South-House of Jameel Ahmad.  2.Property situated at Plot No. 179, Moh Narendra Nagar, Tehsil & District Unnao registered at S.No. 6803 on 20.10.2004, Zild no3128, Bahi No-1. Page no. 65-74 at Sub registrar office Unnao in the name of Mr. Jameel Ahmad S/o Mr. Ghasite & Mrs. Rabiya Parveen W/o Mr. Jameel Ahmad having area 139.24 sq mt. Boundary (as per Dead): East-House of Kumhar, West-Road and Temple North-House of Pappu & others South-House of Dwarika Dhobi | 09.09.2021 | 15.01.2022 | Rs. 14.35,842.96 (Rs. Fourteen Lakh Thirty Five Thousand Eight Hundred and Forty-Two and paise ninety-six only) with further interest w.e.f 01.09.2021 and other charges |
| 2. | Unnao  | M/s Unique<br>Furniture<br>(Prop. Mohd<br>Kamran S/o<br>Mohd<br>Yaqoob), | M/s Unique Furniture (Prop. Mohd Kamran S/o Mohd Yaqoob), Guarantor/ Mortgagor- Mohd Yaqoob S/o Mr. Habib Ahmad & Smt. Najbun Nisha W/o Mohd Yaqoob   | Mohd Yaqoob S/o Mr. Habib Ahmad<br>Area 155.95 sq. mt Boundaries (as<br>Per Deed):East-8 feet Wide Rasta,<br>West-Gali 6 feet wide thereafter<br>Mazar Hazrat Nasrullah Shah, North-<br>8 feet wide Rasta, South-House<br>Naseer S/o Habeeb and vacant land<br>Mukir 108 sq. feet<br>2) Land and Building Situated at 1/2  | 04/10/2021 | 15.01.2022 | Rs. 17,10,054/- (Rupees Seventeen Lakh<br>Ten Thousand and<br>Fifty four Only) with furthe<br>interest w.e.f 01/10/2021<br>and other charges                             |

redeem the secured assets Chief Manager Date 15.01.2022, Place- Lucknow Authorized Officer, Punjab National Bank

TMPORTANT

Whilst care is taken prior to acceptance of advertising copy, it is not possible to verify its contants. The Indian Express (P) Limited cannot be held responsible for such contents, nor for any loss or damage incurred as a result transactions with companies, associations individuals adversing in its newspapers Publications. We therefore recommend that readers make necessary inquiries before sending any monies or entering into any agreements with advertisers or otherwise acting advertisement in any manner whatsoever.

## **GRM OVERSEAS LIMITED**

CIN: L74899DL1995PLC064007

Registered Office: 128, First Floor, Shiva Market Pitampura North Delhi- 110034 Website: www.grmrice.com | Email id: Info@grmrice.com Tel No: 011-47330330 | Fax No: 011-(0180 - 2653673)

## **POSTAL BALLOT NOTICE**

Members of the Company are hereby informed that pursuant to Section 110 and other-applicable provisions, if any, of Companies Act, 2013 read with Rule 22 of Companies (Management & Administration) Rules, 2014 as amended from time to time read with the latest General Circular No. 39/2020 dated December 31, 2020 and the rules made thereunder on account of the threat posed by COVID-19 issued by the Ministry of Corporate Affairs('MCA Circulars') and pursuant to the other applicable laws and regulations, the Company shall seek approval of its members by way of Postal Ballot in respect of the Special business set out in the Postal Ballot Notice dated January 14, 2022 (Postal Ballot Notice).

In terms of MCA Circulars and on account of the threat posed by COVID-19 pandemic, the Company will send the Postal Ballot notice in electronic form only and the communication of the assent or the dissent of the members will also take place only through the remote e-voting system.

The Company has on January 19, 2022 completed dispatching of Postal Ballot Notice by email only to the members whose names appear in the Register of members/List of Beneficial Owners as received from NSDL and CDSL and whose email addresses are available with the Company as on (Friday), January 14, 2022 ('cut-off date').

The Company seeks consent of the members by way of Ordinary Resolution on the matters mentioned in the Postal Ballot Notice through remote e-voting only. A copy of Postal Ballot Notice is also available on the website of the company www.grmrice.com and on the website(s) of the stock exchange i.e. BSE Limited at www.bseindia.com, where the company's shares are listed and on the website of NSDL www.evoting.nsdl.com

Please note that in compliance with the provisions of section 108, 110 and other applicable provisions of the Companies Act, 2013 read with (i) Rule 20 and Rule 22 of the rules as amended (ii) Regulation 44 of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015 and (iii) MCA circulars, the company has provided only the remote e-voting facility to its Members, to enable them to cast their votes electronically instead of submitting the Postal Ballot form. The company has engaged the services of NSDL for providing remote e-voting facilities to the Members, enabling them to cast their vote electronically and in a secure manner.

The members, who are holding shares in physical/electronic form and whose email addresses are not registered, shall register their email-id with the Registrar and Transfer Agent of the Company/their respective Depository participants. The members holding shares in physical form are requested to register their email addresses at the earliest by sending scanned copy of a duly signed letter by the member(s) mentioning their name, complete address, folio number, number of shares held with the Company along with self-attested scanned copy of the PAN Card, Aadhaar Card or any other Govt. document in support of the address poof of the member as registered with the Company for receiving the Postal Ballot Notice by email to Company at Investor.grm@gmail.com. Members holding shares in demat form can update their email address with the Depository Participants. The notice of the Postal Ballot shall contain all the instructions regarding the manner in which the members can cast their vote through remote e-voting.

M/s Devesh Arora and Associates, Company Secretaries, has been appointed as the Scrutinizer for conducting the Postal Ballot process in a fair and transparent manner. The remote e-voting period shall commence on January 20 2022 at 09:00 A.M. and end on February 18, 2022 at 5:00 P.M. The remote e-voting shall not be allowed beyond 5:00 P.M. on February 18, 2022.

If any Member casts his vote by remote e-voting after 5:00 P.M. on February 18, 2022, then that remote e-voting will not be considered as valid vote and will be treated as if reply from such member has not been received.

The result of the Postal Ballot will be declared on or before Saturday, February 19, 2022. The aforesaid result along with the Scrutinizer's report would be displayed on the Company's website www.grmrice.com and on the website of NSDL immediately after the result is declared. The Company will simultaneously forward the results to the Stock Exchanges where the shares of the Company are

Any query or grievance connected with the e-voting can be addressed to the NSDL by email at evoting@nsdl.co.in or call on.: 1800 22 44 30 or 1800 1020 990. Members may also write to the Company at Investor.grm@gmail.com By order of the Board

FOR GRM OVERSEAS LIMITED

Sd/-Balveer Singh (Company Secretary)

INDUSTRIAL & PRUDENTIAL INVESTMENT CO. LTD. CIN: L65990WB1913PLC218486

Registered Office: Paharpur House, 8/1/B Diamond Harbour Road Kolkata 700027

Tel. No. 033-40133000; Email: contact@industrialprudential.com Website: www.industrialprudential.com

NOTICE OF EXTRA ORDINARY GENERAL MEETING

NOTICE is hereby given that an Extra-Ordinary General Meeting ("EGM") of the Members of INDUSTRIAL AND PRUDENTIAL INVESTMENT COMPANY LIMITED ("Company") will be held on Friday, 4th February, 2022, at 03.00 p.m. IST through Video Conferencing ("VC")/Other Audio Visual Means ("OAVM") ("hereinafter referred to as "electronic mode"), for which purpose the Registered office of the Company shall be deemed as the venue and the proceedings of the EGM shall be deemed to be made thereat, to transact the following Special business:

Appointment of M/s S Jaykishan, Chartered Accountants (FRN: 309005E) as Statutory Auditors to fill casual vacancy caused due to resignation of M/s. Lodha & Co., Chartered Accountants (FRN 301051E).

In view of the continuing Covid-19 pandemic, the Ministry of Corporate Affairs ("MCA") has, in continuation of Circular No. 10/2021 dated 23rd June, 2021, vide General Circular No.20/2021 dated 8th December 2021 (hereinafter collectively referred to as "MCA Circulars") permitted Companies to conduct their EGMs through electronic mode. In compliance with these MCA Circulars and the relevant provisions of the Companies Act, 2013 and the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015, the EGM of the Company is being held through electronic mode. Hence, members will be able to attend and participate in the EGM through electronic mode only.

The remote e-voting period begins on 1st February, 2022 at 9.00 a.m. and ends on 3rd February, 2022 at 5.00 p.m. During this period shareholders of the Company, holding shares either in physical form or in dematerialized form, as on the cut-off date i.e. 28th January, 2022 may cast their vote electronically. The e-voting module shall be disabled by Instavote for voting after 5.00 p.m. on 3rd February, 2022.

The Company has appointed Mr. Mayur Mehta, Practicing Company Secretary as the Scrutinizer for conducting the remote e-voting and the voting process at the EGM in a fair and transparent manner. The Scrutinizer will submit his report to the Chairman of the meeting not later than 5th February, 2021.

The said result would be available on the website of the Company www.industrialprudential.com and of Link Intime. The same would be uploaded on the website of BSE in accordance with the LODR.

The Notice of the EGM inter alia indicating the process and manner of e-Voting can also be downloaded from website of the Company www.industrialprudential.com and website of the RTA https://instavote.linkintime.co.in

> For Industrial & Prudential Investment Company Ltd Ayan Datta Company Secretary

TATA CAPITAL HOUSING FINANCE LTD. TATA Regd. Office: 11th Floor, Tower A, Peninsula Business Park, Ganpatrao Kadam Marg, Lower Parel, Mumbai-400013. CIN No. U67190MH2008PLC187552

DEMAND NOTICE

Under Section 13 (2) of the Securitisation and Reconstruction of Financial Assets and Enforcement of Security Interest Act, 2002 ("Act") read with Rule 3 of the Security Interest (Enforcement) Rules, 2002 ("Rules"). Whereas the undersigned being the Authorised Officer of Tata Capital Housing Finance

Limited (TCHFL) under the Act and in exercise of powers conferred under Section 13 (12).

read with Rule 3 of the Rules already issued detailed Demand Notices dated below under Section 13(2) of the Act, calling upon the Borrower(s)/Co-Borrower(s)/Guarantor(s) (all singularly or together referred to "Obligors")/Legal Heir(s)/Legal Representative(s) listed hereunder, to pay the amounts mentioned in the respective Demand Notice/s, within 60 days from the date of the respective Notice/s, as per details given below. Copies of the said Notices are served by Registered Post A.D. and are available with the undersigned, and the said Obligor(s)/Legal Heir(s)/Legal Representative(s), may, if they so desire, collect the respective copy from the undersigned on any working day during normal office hours. In connection with the above, Notice is hereby given, once again, to the said Obligor(s) /Legal Heir(s)/Legal Representative(s) to pay to TCHFL, within 60 days from the date of the respective Notice/s, the amounts indicated herein below against their respective names, together with further interest as detailed below from the respective dates mentioned below in column (d) till the date of payment and / or realisation, read with the loan agreement and other documents/writings, if any, executed by the said Obligor(s). As security for due repayment of the loan, the following Secured Asset(s) have been mortgaged to TCHFL by the said Obligor(s) respectively.

Total Outstanding

Dues (Rs.) as on

below date\*

|   | . rate and research of all                                     | 0.010.11 0.010  |           |
|---|--|---|-----------|
| TCHHF03   |  | As on 24-12-2021 an amount of   | 24/12/202 |
| 99000100<br>003706 &<br>TCHHF03<br>99000100<br>068123 | (Borrower) and Rajesh<br>Saini & Monica Saini<br>(Co-Borrower) | Rs. 7560583/- (Rupees Seventy Five Lakh Sixty Thousand Five Hundred Eighty Three Only) is due and payable by you under Loan Account No. TCHHF039900 0100003706 and an amount of Rs. 1467642/- (Rupees Fourteen Lakh Sixty Seven Thousand Six Hundred Forty Two Only) is due and payable by you under Loan Account No. TCHHF03990001000 68123 i.e. totalling to Rs.9028225/- (Rs. Ninety Lakh Twenty Eight Thousand Two Hundred Twenty | 03/11/202 |

Contract Name of Obligor(s)/

Legal Heir(s)/Legal

Representative(s)

Description of the Secured Assets/Immovable Properties/ Mortgaged Properties: All that piece and parcel of the Residential Plot bearing No. 511, Admeasuring 49.50 Sq. Mtrs. e. 59.202 Sq. Yds., Situated at Sector 40, Urban Estate Gurgaon - II, Sub Tehsili Wazirabad, Distt. Gurugram (Haryana), with all common amenities mentioned in sale deed.

with further interest, additional Interest at the rate as more particularly stated in respective Demand Notice dated mentioned above, incidental expenses, costs, charges etc incurred till the date of payment and/or realization. If the said Obligor(s) shall fail to make payment to TCHFL as aforesaid, then TCHFL shall proceed against the above Secured Asset(s)/Immovable Property(ies) under Section 13(4) of the said Act and the applicable Rules entirely at the risk of the said Obligor(s)/Legal Heir(s)/Legal Representative(s) as to

The said Obligor(s)/Legal Heir(s)/Legal Representative(s) are prohibited under the said Act. to transfer the aforesaid Secured Asset(s)/Immovable Property, whether by way of sale, lease or otherwise without the prior written consent of TCHFL. Any person who contravenes or abets contravention of the provisions of the Act or Rules made thereunder shall be liable for imprisonment and/or penalty as provided under the Act.

Date: 20/01/2022 Place: - Delhi

Sd/-Authorised Officer, For Tata Capital Housing Finance Limited

indianexpress.com



I choose substance over sensation.

Inform your opinion with credible journalism.

The Indian Express. For the Indian Intelligent.





सेन्ट्रल बैंक ऑफ़ इंडिया

Regional Office: 31, Jail Chungi Meerut City

**POSSESSION NOTICE** 

Central Bank of India

0121-433102 APPENDIX- IV RULE- 8(1) Security Interest (Enforcement) Rules, 2002 (For Immovable Property)

Whereas, The undersigned being the authorised officer of the Central Bank of India under the Securitisation and Reconstruction of Financial Assets and

Enforcement of Security Interest Act, 2002 (hereinafter referred as "Act") and in exercise of Powers conferred under section 13 (2) & 13 (12) read with rule 3 of the Security Interest (Enforcement) Rules, 2002 issued a demand notice calling upon the Borrowers/Guarantors/Mortgagor to repay the amount mentioned in the notice within 60 days from the date of the said notice. The borrower/Guarantors/Mortgagor having failed to repay the amount, notice is hereby given to the Borrowers/ Guarantors and the public in general that the undersigned has taken possession of the property described herein below in exercise of powers conferred on him/her under sub-section (4) of Section 13 of the "Act" read with rule 8 of the Security Interest (Enforcement) Rules, 2002 on this below mentioned the date. The borrowers/Guarantors in particular and the public in general is hereby cautioned not to deal with the property and any dealings with the property will be subject to the charge of the Central Bank of India, Respective Branch for notice amount and interest thereon. The borrower's attention is invited to the provisions of Sub-section (8) of Section 13 of the Act, in respect of time available to redeem the secured assets Date of Branch/Borrower's/Guarantor's

| SL<br>No. | Branch/Borrower's/Guarantor's<br>Names   | Detail of Mortgaged Property  | Date of<br>Demand<br>Notice         | Amount Dues   |
|-----------|--|---|-------------------------------------|---|
| 1.        | Branch: Shastri Nagar, Meerut Borrower: Mohd Aslam S/o Mr. Abdul Gaffar, Mohd Subhan S/o Shri Abdul Gaffar & Smt. Shahana W/o Mohd Aslam, R/o H.No. 107, Janak Puri, Pilokhri Road, Mear Bijli Ghar, Meerut, Distt-Meerut & its Guarantor: Mohd Qasim S/o Mohd Yamin, R/o 5/2, Pilokhri Road, Ward No. 59 Head Quarter near D.M. Public School Meerut, Distt-Meerut. | Property No. 1. Equitable mortgage of residential land and building Situated at H.No. 107-A Janak Puri, Pilokhri Road, Near Bijlighar, Meerut, Admeasuring 106.10 sq. mtrs in the name of Mohd Aslam S/o Abdul Gaffar & Mohd Subhan S/o Abdul Gaffar, Bounded as under: North: Property of Sanjeev Chaudhary & others (44 ft 6.5"), South: Dharamshala (45 ft 1.5"), East: Rasta 20 ft wide (25 ft 4"), West: Property of Sanjeev Chaudhary & other (25 ft. 7.5").  Property No. 2. Equitable mortgage of residential land and building | Date of<br>Possession<br>18.01.2022 | Rs. 5,15,523/- + interest thereon along with further, interest thereon plus incidental expenses, costs charges etc.                 |
|           | Mrs. Shahana W/o Mohd Aslam. Bounded as un   | d, Near Bijlighar, Meerut, Admeasuring 56.41 sq. mtrs in the name of<br>der: North: Rasta 20ft wide, South: Property of Sanjeev Chaudhary &<br>others (4ft. 9"), West: Part of the property of Sanjeev Chaudhary and  |                                     |   |
| 2.        | Mohd Aslam S/o Mr. Abdul Gaffar, R/o H.No.<br>107/A, Janak Puri, Pilokhri Road, Near Bijli Ghar,<br>Meerut Distt Meerut & its <b>Guarantors</b> : Mr. Subhan<br>S/o Mr. Abadul Gaffar, R/o 107/B, Janak Puri,  | Property No. 1. Equitable mortgage of residential land and building Situated at H.No. 107 ( Khasra 666) Janak Puri, Pilokhri Road, Near Bijlighar, Meerut, Admeasuring 53.28 sq. mtrs in the name of Mrs. Shahana W/o Mohd Aslam S/o Abdul Gaffar and Mohd Aslam S/o Abdul Gaffar. Bounded as under: North: Rasta 20 ft wide (14 ft 9"), South: House of Smt. Shahana (23 ft 2"), East: Portion of the house of Smt. Shahana (37ft 5"), West: 15ft 10"/plus cona west to north thereafter remaining portion of Smt. Chaman Begum.       | Date of                             | Rs. 5,82,935/-<br>+ interest thereon<br>along with further,<br>interest thereon plus<br>incidental expenses,<br>costs charges etc.  |
|           | Property No. 2. Equitable mortgage of residential Road, Near Bijlighar, Meerut, Admeasuring 16.68 under: North: Rasta 25 ft wid, South: House of McWest: Roof of Mohd Ashraf and Others.   |   |                                     |   |
| 3.        | Mrs. Renu Garg W/o Mr. Sandeep Garg, R/o 101   | (Equitable) Mortgage of Property Situated at Khata No. 00292, Kasra/ Khatauni No. 125/Ka/2, situated at Village Kharkhauda, Prgana Sarwa, Tehsil & District Meerut Near DAV College Kharkhoda Hapur Road, Meerut in the name of Mrs. Renu Garg W/o Mr. Sandeep Garg. Bounded as under: North: 242 feet 7-1/2 inch/Plot measuring 1442.50, South: 242 feet 7-1/2 inch/ Land of other, East: 64 feet/Land of seller and Rasta 20 feet wide, West: 64 feet/Wall of land and khet of others.  | Date of                             | Rs. 17,16,889/-<br>+ interest thereon<br>along with further,<br>interest thereon plus<br>incidental expenses,<br>costs charges etc. |
| A         | Proposit Mooret City   | All the cost and cost of the cost of cost of Decidents.   | 00.04.0004                          |   |

4. Branch: Meerut City All the part and parcel of the property consisting of Residential Land 23.04.2021 Borrower: Sri Naushad S/o Mohd. Ikramuddin, and Building total are 58.40 Sq. Mtrs. Situated at MPL No.118, Old No. R/o 118 South Patel Nagar, Meerut- 250002 U.P.

Mohd. Ikramuddin. Bounded: On the North by: Adjoining 12 feet Rasta. and Guarantor: Sri Nizamuddin S/o Ikramuddin, R/o 23, Dargah Wali Gali, Sotiganj, Meerut-On the East by: Adjoining House of Smt. Maya Devi, On the South by: Adjoining Govt. Lane, On the West by: Adjoining House of Sri. Sarajit Saran. 18.01.2022 250002. U.P. 5. Branch: Deoband Equitable Mortgage of residential land and building Situated at H.No. 17.04.2021 Borrower: Mohd Avaz Qasmi S/o Mohd Shakeel 653, Welcome Colony Moh Sarai Malyan, Deoband, Distt- Saharanpur, (Proprietor of M/s Islamic Academy) & Late Smt. Uttar Pradesh- 247554, admeasuring 45.89 sq.mtrs. North: CC lane

Welcome Colony, Majvata Pat Avval, Mohd Saraimalyan, Deoband, Distt- Saharanpur. 6. Branch: Charthawal Borrower: Mr. Krishan Pal S/o Mr. Hari Singh. R/o H.No. 316 part of plot no. 8 & 9, Khasra No. 946, mohalla Shiv Nagar, Rakba Gram Sarvat Pargana Tehsil & Distt Muzaffarnagar & its

Guarantor: Smt. Sangeeta Rani W/o Mr. Ajay

Rafia Kaisar W/o Mohd Shakeel, R/o H.No. 653,

Kumar, R/o Rakba Gram Sarvat Gali No. 1, Subhesh Nagar Pargana/ Tehsi & Distt- Muzaffarnagar. 7. Branch: Civil Line Muzaffarnagar Borrower: Smt. Amarwati W/o brahmsingh Pal and brahm singh Pal S/o Rishipal, R/o Sukram Pradhan Vali Gali Near PS Publics School Almaspur, Muzaffarnagar & the Guarantor:

Rishipal S/o Chetram, R/o Vill Sahawali, Muzaffarnagar. 8. Branch: Muzaffarnagar, Mandi

Property No. 1. (Equitable) mortgage of property Situated at municipal No. 06.05.2021 Borrower: Shri Iqbal Ahmed S/o Shri Rizwan Ahmed 762/6 Khasra No. 2165 Khalapar Nai abadi Muzaffarnagar U.P., admeasuring (Proprietor M/s Sabri ice factor) and Smt. Slamti 197.02 Sq. metres, in the name of Mr. Iqbal ahmad S/o Mr. Rizwan Ahmad. begum and Mr. Danish igbal, R/o H.No. 807 under sale deed no. 14895. Bounded as under: North: Plot of Shri lobal Khalapar 14 Muzaffarnagar, Distt- Muzaffarnagar. Ahmad, South: House of Rizwan Qureshi, East: House of azam etc. West:

commercial plot of igbal ahmad & Rasta combined

New Delhi

property of others, West: Plot of Mr. Rakam Singh.

20' wide, West: House of Chatru.

West: Rasta 20" wide.

107, South Patel Nagar, Meerut- 250002 in the name of Naushad S/o

Equitable mortgage of residential property Situated at H.No. 316,

part of plot of 8 & 9, Khasra No. 946, Mohalla Shiv Nagar Rakba

Gram Sarvat, Muzaffarnagar, admeasuring 54.85 sq. mtrs in the

name of Mr. Krishan Pal S/o Mr. Hari Singh, Bounded as under:

North: Plot part of 8 & 9, South: Property of Sunita Devi, East: Road

Area 97.99 square meter at Village Almaspur Muzaffarnagar, North:

Plot of other Person, South: Plot No. 43, East: Plot of other person.

15 ft wide, South: Residential Plot of Mohd Irshad, East: Residential Date of Possession

Equitable Mortgage of residential House bearing Khasra No. 150 | 15.07.2021

15.01.2022 Property No. 2. Equitable Mortgage of Property part of Khasra No. 2169 at vill Muzaffarnagar U.P. admeasuring 356.66 sq. mtrs in the name of Mr. Iqbal ahmad S/o Mr. Rizwan ahmad, under sale deed no. 6584. Bounded as under: North: House

Date of Possession

15.01.2022

08.07.2021

Possession

17.01.2022

Date of

15.01.2022

Rs. 62,42,251/-+ interest thereon along with further, interest thereon plus incidental expenses, costs charges etc. **Authorized Officer** 

Rs. 23,23,842.00

+ interest thereon

along with further,

interest thereon plus

ncidental expenses,

costs charges etc.

Rs. 6,91,484/-

+ interest thereon

along with further,

interest thereon plus

incidental expenses,

costs charges etc.

Rs. 12,18,479/-

+ interest thereon

along with further,

interest thereon plus

incidental expenses,

costs charges etc.

Rs. 5,37,443.89

+ interest thereon

along with further,

nterest thereon plus

incidental expenses,

costs charges etc.

of Jamal, South: Rasta combined igbal ahmad, East: commercial plot of Igbal Ahmad, West: Commercial Plot of igbal Ahmad. Date: 19.01.2022 Place: Meerut

## OSBI

आईटी-पार्टनर रिलेशनशिप एंड बीएनसीसी डिपार्टमेंट भारतीय स्टेट बैंक, ग्लोबल आईटी सेन्टर, सेक्टर-11, सीबीडी बेलापुर, नवी मुंबई - 400614

शुद्धिपत्र-1

सेवा प्रदाताओं के पैनल में शामिल होने और ई-टेंडरिंग, फॉरवर्ड ऑक्शन और रिवर्स ऑक्शन सर्विसेज के लिए रेट डिस्कवरी हेतु कृपया आरएफपी सं. SBI/GITC/Partner Relationships/2021/2022/820 दिनांकित: 03.01.2022 देखें. इस आरएफपी का 'शुद्धिपत्र' जारी किया गया है. कृपया https://www.sbi.co.in पर ''प्रोक्यूरमेंट न्यूज'' एवं ई-प्रोक्यूरमेंट एजेन्सी पोर्टल https://etender.sbi/SBI/ पर विज़िट करें.

स्थान: नवी मुंबई तिथि: 20.01.2022

उप महाप्रबंधक आईटी-पार्टनर रिलेशनशिप एंड बीएनसीसी



#### Before the Central Government Registrar of Companies, NCT of Delhi & Haryana

In the matter of sub-section (3) of Section 13 of Limited Liability Partnership Act, 2008 and rule 17 of the Limited Liability Partnership Rules, 2009 In the matter of the Limited Liability Partnership Act, 2008, Section 13 (3) AND II the matter of M/s VALLEY GRASSFIELD RESORTS LLP having its registered office at Unit No. 121, First Floor, Wadham Premin Mall Outer Ring Road, Deepali, Pitampura North West Delhi, North Delhi - 110034 (DL) Petitioner

Notice is hereby given to the General Public that the LLP proposes to make a petition to Registrar of Companies, NCT of Delhi & Haryana, under section 13 (3) of the Limited Liability Partnership Act, 2008 seeking permission to change its Registered office from the state of "DELHI" to the state of "RAJASTHAN". Registered post of his/her objections supported by an affidavit stating the nature of

Any person whose interest is likely to be affected by the proposed change of the registered office of the LLP may deliver or cause to be delivered or send by his/her interest and grounds of opposition supported by an affidavit to the Registrar of Companies, NCT of Delhi & Haryana, within 21( twenty one) days from the date of publication of this notice with a copy to the petitioner LLP at its registered office at the address mentioned above. For and on behalf of

**VALLEY GRASSFIELD RESORTS LLP** 

Date: 18.01.2022 Place: New Delhi

RADHIKA PAREEK DPIN: 05236430 (Designated Partner)

वरि. महाप्रबंधक / वा. एवं चरि. / क्षेत्र-।

#### PROTECTING INVESTING FINANCING ADVISING आदित्य बिरला हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड

पंजीकृत कार्यालय : इंडियन रेयॉन कम्पाउण्ड, वेरावल, गुजरात-362 266,

शाखा कार्यालय : आदित्य बिरला हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड, उसरा तल, नं. 2, साबू टॉवर, चोपासानी रोड, सामने धनलक्ष्मी बैंक, जोधपुर, राजस्थान-342003. अधिकृत प्राधिकारी : धर्मेन्द्र सिंह, मोबाइल : 917792000888, देवेन्द्र राठौर, मोबाइल : 919829222694, श्री तुंगध्वज कौशिक, मोबाइल : 09873662400, श्री पंकज राणा, मोबाइल नं. : 9911658080

### अचल सम्पत्तियों की बिक्री हेत बिक्री सचना

प्रतिभृति हित (प्रवर्तन) नियम, 2002 के नियम 8(6) एवं 9(1) के प्रावधानों के साथ पठित प्रतिभृत हि अधिनियम, 2002 की वित्तीय आस्तियों तथा प्रवर्तन के प्रतिभितकरण एवं पनर्निर्माण के तहत अचर आस्ति(यों) की बिक्री हेतु ई-नीलामी बिक्री सूचना

एतद्वारा जनसामान्य को तथा विशेष रूप से कर्जदार(रों) एवं जमानती(यों) को सचना दी जाती है कि प्रतिभृत लेनदार के पास बंधक/प्रभारित निम्नलिखित अचल सम्पत्तियों, जिस पर आदित्य बिरला हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड/प्रतिभूत लेनदार के अधिकृत प्राधिकारी द्वारा रचनात्मक कब्जा कर लिया गया था, की बिक्री आदित्य बिरला हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड/प्रतिभूत लेनदार के कर्जदारों तथा जमानती(यों) नामतः श्री अशोक मोहन पुत्र मोहन लाल बंजारा, श्रीमती सुमित्रा बंजारा की ओर बकाया 12 जनवरी, 2022 तक रु. 16,73,751.95/-एवं वसूली की तिथि तक भावी ब्याज एवं उस पर अन्य व्ययों की वसूली के लिए ''जहाँ है जैसे है'', ''जं है यही है'' तथा ''जो कुछ भी है वहीं है'' के आधार पर 8 फरवरी, 2022 को की जायेगी।

आरक्षित मूल्य रु. 8,43,750/- (रुपये आठ लाख तैंतालीस हजार सात सौ पचास मात्र) तथा ईएमडी राशि आरक्षित मूल्य के 10% अर्थात रु. 84,375/- (रुपये चौरासी हजार तीन सौ पिचहत्तर मात्र) जमा करने की अन्तिम तिथि 7 फरवरी, 2022 तक या इससे पूर्व है।

## अचल सम्पत्ति का विवरण :

आवासीय सम्पत्ति पर स्थित निर्मित सम्पत्ति का सम्पूर्ण भाग : प्लॉट नं. 390, खसरा नं. 384 चक नं. 2, अम्बेडकर नगर पाली, राजस्थान-306401 आदि बिक्री विलेख के अनुसार, सीमाएं ्पर्व : प्लॉट नं. 389, पश्चिम : इस प्लॉट का शेष भाग, उत्तर : प्लॉट नं. 395, दक्षिण : 20 फीट चौड़ी सड़क।

अधोहस्ताक्षरी के संज्ञान में अचल सम्पत्ति पर कोई ऋणभार नहीं है।

बिक्री के विस्तृत नियम एवं शर्तों के लिए कृपया आदित्य बिरला हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड/प्रतिभृत लेनदार की वेबसाइट : https://homefinance.adityabirlacapital.com/propertiesfor-auction-under-sarfaesi-act अथवा https://sarfaesi.auctiontiger.net देखें। तिथि : 20.01.2022 प्राधिकृत अधिकारी

स्थान : जोधपुर, राजस्थान

आदित्य बिरला हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड



# टाटा कैपिटल हाउसिंग फाइनेंस लि. पंजीकृत कार्यालयः 11वां तल, टॉवर ए, पेनिनसुला बिजनेस पार्क, गणपतराव कदम मार्ग, लोवर पार्ले, मुंबई—400013, सीआईएन नं. यू67190एमएच2008पीएलसी187552

मांग सूचना

प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियमावली 2002 ("नियमावली") के नियम 3 के साथ पठित वित्तीय परिसम्पित्तयों के प्रतिभूतिकरण एवं पुनर्निर्माण तथा प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम 2002 ("अधिनियम") की धारा 13(2) के अंतर्गत।

जबिक, अधोहस्ताक्षरकर्ता ने टाटा कैपिटल हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड (टीसीएचएफएल) के प्राधिकृत अधिकारी के रूप में अधिनियम के अंतर्गत तथा नियमावली के नियम 3 के साथ पठित धारा 13 (12) के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों के प्रयोगान्तर्गत, पहले ही अधिनियम की धारा 13(2) के अंतर्गत विस्तृत मांग सूचनाएं दिनांकित निम्नानुसार निर्गत कर दी हैं, जिन सूचनाओं में उधारकर्ता(ओं) / सह-उधारकर्ता(ओं) / गारंटर(रों) (सभी एकत् रूप में अथवा संयुक्त रूप में ''बाध्यताधारियों यानी ऑब्लिगर्स'' के रूप में संदर्भित)/उनके कानूर्न वारिस(सों) / विधिक प्रतिनिधि(यों), जिनकी सूची नीचे दी गई है, सभी को संबंधित मांग सूचना / ओं में वर्णित बकाया धनराशियों का. संबंधित सचना /ओं की तिथि से 60 दिवसों के अंदर, नीचे दिए गए विवरणों के अनुसा भुगतान करने को कहा गया था। उक्त सूचनाओं की प्रतियां पंजीकृत डाक ए.डी. द्वारा प्रेषित की गई थीं तथ जो अब भी अधोहस्ताक्षरकर्ता के पास उपलब्ध हैं, तथा उक्त बाध्यताकारी(रियों) / कानुनी वारिस(सों) / विधिव प्रतिनिधि(यों), यदि वे ऐसा करने के इच्छक हैं, तो किसी भी कार्यदिवस पर सामान्य कार्यालय समय के दौरान

उपरोक्त के संबंध में, एतदद्वारा उक्त बाध्यताकारी(रियों) / कानूनी वारिस(सों) / विधिक प्रतिनिधि(यों) को एव बार पुनः सूचित किया जाता है कि टाटा कैपिटल हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड (टीसीएचएफएल) को, संबंधित सूचना / ओं की तिथि से 60 दिवसों के अंदर, उनके संबंधित नामों के समक्ष यहां नीचे इसमें उल्लिखित धनर . शियों का, उक्त बाध्यताकारी(रियों) द्वारा निष्पादित ऋण अनुबंध एवं अन्य प्रलेखों ∕ आलेखों, यदि कोई, के साथ पिठत, स्तंभ (घ) में निम्न वर्णित संबंधित तिथियों से लेकर के भुगतान तथा / अथवा वसूली होने की तिथि तक आकलित होनेवाले भावी ब्याज, निम्न विवरणितानुसार, के साथ भुगतान करें। ऋण के नियत प्रतिभुगतान की प्रतिभूति के रूप में, उक्त बाध्यताकारी(रियों) द्वारा टाटा कैपिटल हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड (टीसीएचएफएल के पास क्रमशः निम्नलिखित प्रतिभूत परिसम्पत्ति(यों) को बंधक के रूप में रखा गया है।

| सं.                 |   | तिथि के अनुसार*  | तिथि   |
|---------------------|---|--|--|
|                     | निधि(यों) के नाम                              |  | एनपीए की तिथि  |
| TCHHF03             |   | 24.12.2021 के अनुसार रु.                                     |  |
| 99000100            |   | 75,60,583 / — (रुपए पिचहत्तर लाख                             |  |
| 003706 &            |   | साठ हजार पांच सौ तिरासी मात्र) ऋण<br>खाता सं. टीसीएचएचएफ     | DESCRIPTION OF THE PROPERTY OF |
| TCHHF03<br>99000100 | (सह—उधारकता) क रूप म<br>                      | 0399000100003706 के अंतर्गत आपके                             |  |
| 068123              |   | द्वारा देय एवं भुगतानयोग्य है तथा रु.                        |  |
| 333123              |   | 14,67,642 / — (रुपए चौदह लाख                                 |  |
|                     |   | सतसठ हजार छह सौ बयालिस मात्र)                                |  |
|                     |   | की एक राशि जो है वह ऋण खाता सं.                              |  |
|                     |   | टीसीएचएचएफ0399000100068123 के<br>अंतर्गत आपके द्वारा देय एवं |  |
|                     |   | भुगतानयोग्य है अर्थात् कुल रु.                               |  |
|                     |   | 90,28,225 / — (रुपए नब्बे लाख                                |  |
|                     |   | अट्ठाईस हजार दो सौ पच्चीस मात्र) की                          |  |
|                     |   | एक राशि देय एवं भुगतानयोग्य है।                              |  |
| ਸਵਿਸ਼ਤ ਸਹਿਸ         | <br>प्राचित्रों /अन्य सम्म <del>चित्रों</del> | Varia umani a Baur i august                                  | , orgin zi 544 z   |
| भावभूत पारस         | नन्यात्तया / अचल सम्पात्तया                   | / बन्धक सम्पत्तियों का विवरण : आवासीर                        | ા <del>મૂ</del> લાક સ. 511 લ   |

समस्त भाग तथा अंश इस प्रकार हैं, जिसका अधिमापन ४९.५० वर्ग मीटर अर्थात् ५९.२०२ वर्ग गज है जो सेक्टर 40, अर्बन एस्टेट गुड़गांव–।।, उप–तहसील वजीराबाद, जिला गुरुग्राम (हरियाणा) में स्थित है और जो विक्रय विलेख में वर्णित समस्त आम सुख—सुविधाओं के साथ है।


\*संबंधित मांग सूचना दिनांकित ऊपर वर्णित में अधिक विवरणात्मक रूप में उल्लेखितानुसार दर पर भावी ब्याज, अतिरिक्त ब्याज, आकस्मिक व्ययों, लागतों, प्रभारों इत्यादि जो कि भुगतान तथा / अथवा वसूली की तिथि तक उपगत हैं। यदि उक्त बाध्यताकारी(रियों) उपर्युक्तानुसार टीसीएचएफएल को भूगतान करने में विफल होंगे, तो टीसीएचएफएल उपरोक्त प्रतिभूत परिसम्पित्ति(यों) / अचल सम्पित्ति(यों के विरुद्ध उक्त अधिनियम की धारा 13(4) तथा लागू नियमावली के अंतर्गत, समग्र रूप में लागतों एव परिणामों से संबंधित, उक्त बाध्यताकारी(रियों) / कानूनी वारिस(सों) / विधिक प्रतिनिधि(यों) के जोखिमे

उक्त बाध्यताकारी(रियों) / कानूनी वारिस(सों) / विधिक प्रतिनिधि(यों) को उक्त अधिनियम के अंतर्गत प्रति बंधित किया जाता है कि वे विक्रय, पट्टा के माध्यम से अथवा अन्यथा, टीसीएचएफएल की पूर्व लिखित सहमति—अनुमति के बिना, उपर्युक्त प्रतिभूत परिसम्पत्ति(यों)/अचल सम्पत्ति का हस्तांतरण नहीं कर सकेंगे। कोई भी व्यक्ति जो अधिनियम के प्रावधानों अथवा उनके अंतर्गत विरचित नियमावली क उल्लंघन करता है अथवा उल्लंघन के लिए उकसाता है, तो अधिनियम के अंतर्गत उपलब्धानुसार उसे कारावास दंड तथा / अथवा अर्थदंड दिया जाएगा।

हस्ता./- प्राधिकृत अधिकारी कृते टाटा कैपिटल हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड आईडीएफसी फर्स्ट बैंक लिमिटेड

(पूर्व का कैपिटल फर्स्ट लिमिटेड तथा आईडीएफसी बैंक लिमिटेड के साथ समामेलित) सीआईएन : L65110TN2014PLC097792

पंजीकृत कार्यालय : केआरएम टॉवर्स, 8वीं मंजिल, हैरिगटन रोड, चेटपेत,चेन्नई-600031. दुरभाष : +91 44 4564 4000 । फैक्स : +91 44 4564 4022.



परिशिष्ट IV [नियम 8(1)] कब्जा सूचना (अचल सम्पत्ति हेतु)

जबिक अधोहस्ताक्षरी ने प्रतिभृति हित (प्रवर्तन) नियम, 2002 के नियम 3 के साथ पठित प्रतिभृति हित अधिनियम, 2002 के प्रवर्तन तथा वित्तीय आस्तियों के प्रतिभतिकरण एवं पनर्निर्माण के तहत आईडीएफसी फर्स्ट बैंक लिमिटेड (पर्व का कैपिटल फर्स्ट लिमिटेड तथा आईडीएफसी बैंक लिमिटेड के साथ समामेलित) का अधिकृत प्राधिकारी होने के नाते कर्जदार, सह–कर्जदारों तथा जमानतियों 1. हाईटेक इंजीनियरिंग प्राइवेट लिमिटेड, 2. श्री जमाल अहमद, 3. श्री मोहम्मद हारून, 4. श्रीमती कमरुन्निसा अलीशेरचांद से 21.08.2021 तक सुचना में लिखित राशि रु. 87,31,409.88/- (रुपये सत्तासी लाख इकतीस हजार चार सौ नौ एवं अट्टासी पैसे मात्र) का कथित सुचना की प्राप्ति की तिथि से 60 दिनों के भीतर पुनर्भुगतान करने को कहते हुए 07.02.2020 को एक माँग सूचना निर्गत की थी।

कर्जदारों के राशि के पूनर्भगतान में असफल रहने के कारण एतद्वारा कर्जदार को तथा जनसामान्य को सूचना दी जाती है कि अधोहस्ताक्षरी ने प्रतिभृति हित (प्रवर्तन) नियम, 2002 के नियम 8 के साथ पठित अधिनियम की धारा 13 की उपधारा (4) के तहत उसे प्रदत्त शिक्तयों के उपयोग में 17 जनवरी, 2022 को सम्पत्ति पर सांकेतिक कब्जा कर लिया है।

विशेष रूप से कर्जदारों तथा जनसामान्य एतद्वारा सम्पत्ति के साथ कोई लेन-देन न करने की चेतावनी दी जाती है और सम्पत्ति के साथ कोई लेन-देन रु. 87,31,409.88/- (रुपये सत्तासी लाख इकतीस हजार चार सौ नौ एवं अट्ठासी पैसे मात्र) तथा उस पर ब्याज के लिए आईडीएफसी फर्स्ट बैंक लिमिटेड (पूर्व का कैपिटल फर्स्ट लिमिटेड तथा आईडीएफसी बैंक लिमिटेड के साथ समामेलित) के प्रभार

प्रतिभूत आस्तियों को छुड़ाने के लिए उपलब्ध समय-सीमा के परिप्रेक्ष्य में कर्जदार का ध्यान अधिनियम की धारा 13 की उपधारा (8) के प्रावधानों की ओर आकृष्ट किया जाता है।

#### अचल सम्पत्ति का विवरण

इंडस्ट्रियल प्लॉट/शेड नं. 83, ब्लॉक एफ, सेक्टर 8, गौतम बुद्ध नगर, नोएडा-201301 में स्थित, माप क्षेत्रफल 204 वर्ग मीटर या कम या अधिक। तथा सीमाएं

पूर्व : प्लॉट एफ-84 सेक्टर 8, पश्चिम : प्लॉट नं. एफ-82, सेक्टर 8, दक्षिण : 12 मीटर चौड़ी रोड, उत्तर : प्लॉट नं. एफ-108 सेक्टर 8 अधिकत प्राधिकारी दिनांक : 17.01.022

आईडीएफसी फर्स्ट बैंक लिमिटेड स्थान : नोएडा (पर्व का कैपिटल फर्स्ट बैंक लिमिटेड तथा आईडीएफसी बैंक लिमिटेड के साथ समामेलित ऋण खाता सं. : 19204557

## SREI EQUIPMENT FINANCE LIMITED

CIN: U70101WB2006PLC109898 (A Company under Corporate Insolvency Resolution Process by an order dated October, 8,2021 passed by Hon'ble NCLT Kolkata) Head Office: Plot no. Y-10. Block EP, Sector-V, Salt Lake City, Kolkata-700091 Registered Office: Vishwakarma 86C, Topsia Road (South), Kolkata-700046

Email:sefpl@srei.com Website:www.srei.com

#### POSSESSION NOTICE (For Immovable Property)

[Rule 8(1) read with Appendix IV of the Security Interest (Enforcement) Rules, 2002] WHEREAS.

The undersigned being the authorized officer of SREI Equipment Finance Limited ("Srei") under the Securitization & Reconstruction of Financial Assets and Enforcement of Security Interest Act 2002 ("Act") and in exercise of powers conferred under Section 13(12) read with Rule 3 of the Security Interest (Enforcement) Rules, 2002 ("Rules"), issued a Demand Notice dated 30th September, 2021 under Section 13(2) of the Act calling upon the Borrower, namely, Coronation Infrastructure Private Limited at E-0, The Miracorporate Suites, 1 & 2 Ishwar Nagar, New Delhi-110065 and the Mortgagors namely Mr. Surinder Singh Atwal and Mr. Ranjit Singh Atwal, residing at A-18, Neeti Bagh, New Delhi-110049 to repay the amount mentioned in the said notice, being Rs.54,45,76,624/- (Rupees Fifty Four Crore Forty Five Lacs Seventy Six Thousand Six Hundred and Twenty Four) only payable and due as on 15th September, 2021 together with further interest thereon, costs, charges and other monies until payment or realization, within 60 days from the date of receipt of the

The Borrower and the Mortgagors having failed to repay the amount, notice is hereby given to the Borrower and Mortgagors in particular and to the public in general that the undersigned has taken symbolic possession of the said properties (as described hereinbelow and belonging to the Mortgagors) in exercise of powers conferred on him under Section 13(4) of the Act read with Rule 8 of the Rules on 17.01.2022.

The Borrower and the Mortgagors in particular and the public in general is hereby cautioned not to deal with the said properties and any dealings with the said properties will be subject to the charge of Srei for an amount of Rs.54,45,76,624/- (Rupees Fifty Four Crore Forty Five Lacs Seventy Six Thousand Six Hundred and Twenty Four) only as on 15th September, 2021, together with further interest thereon, costs, charges and other monies.

The Borrower's and the Mortgagors' attention is invited to provisions of sub-section (8) of Section 13 of the Act, in respect of time available, to redeem the secured assets and repay the aforementioned dues to Srei.

## DESCRIPTION OF THE IMMOVABLE PROPERTY

| SI. No.  | Description of Mortgaged Property  | Name of Owners                              |
|----------|--|---|
| 1        | ALL THAT pieces and parcels of Land admeasuring 8 Bigha and 3 Biswas (Approx. 1.70 Acres) out of entire land 13 Bigha, 1 Biswa, comprised in Mustatil No. 35, Killa No. 18 (4-0) and 23 Min (4-3), situated in village Mehrauli, Tehsil Mehrauli, New Delhi together with a G+1 building admeasuring 4,710 Sq Ft (Built Up area) and any saleable areas thereon and all plants and machineries attached to the earth or permanently fastened to anything attached to the earth and all benefits, rights, advantages accruing both in present and future. | Surinder Singh Atwal     Ranjit Singh Atwal |
| Date : 1 | 7.01.2022  | Authorised Office                           |

Date: 17.01.2022 Place: New Delhi (SREI Equipment Finance Limited)

SHALIMAR

# शालीमार पेंट्स लिमिटेड

सीआईएनः एल24222एचआर1902पीएलसी065611

पंजी. कार्यालयः स्टेनलेस सेंटर, 4वां तल, भूखंड सं. 50, सेक्टर—32, गुरुग्राम, हरियाणा—122001 निगमित कार्यालयः प्रथम तल, भूखंड सं. 28, सेक्टर-32, गुरुग्राम, हरियाणा-122001 वेबसाइटः www.vikaslifecarelimited.com, ई-मेलः cs@vikaslifecarelimited.com दूरभाष सं.: 91 124 461 6600, फैक्स नं. 91 124 461 6659

वित्तीय वर्ष 2021—22 हेतु 1वीं असाधारण सामान्य बैठक की सूचना

## दूरस्थ ई-मतदान जानकारी

1) शालीमार पेंटस लिमिटेड ("कंपनी") के सदस्यों की वित्तीय वर्ष 2021–22 ("ईजीएम") हेत् 1वीं असाधारण सामान्य बैठक का आयोजन गुरुवार 10 फरवरी 2022 को 11.30 बजे (आईएसटी) वीडियो कांफ्रेंसिंग ('वीसी'') / अन्य दृश्य–श्रव्य माध्यमों (''ओएवीएम'') के माध्यम से किया जाएगा, और यह आयोजन जो है वह ईजीएम की सूचना में निर्धारितानुसार विशेष व्यवसायों का लेन-देन करने के लिए किया जाएगा, जो किसी आम स्थल पर सदस्यों की शारी रिक अर्थात व्यक्तिगत उपस्थिति के बिना कॉर्पोरेट कार्य मंत्रालय ("एमसीए") द्वारा निर्गत सामान्य परिपत्रों संख्याएं क्रमशः 14 / 2020. 17 / 2020. 22 / 2020 33/2020, 39/2020, 10/2021 एवं 20/2021 दिनांकित 08 अप्रैल 2020, 13 अप्रैल 2020, 15 जून 2020, 28 सितंबर 2020, 31 दिसंबर 2020, 23 जून 2021 और 08 दिसंबर 2021 के माध्यम से (सामूहिक रूप में "एमसीए परिपत्रों" के रूप में संदर्भित") और भारतीय प्रतिभृति एवं विनिमय बोर्ड ("सेबी परिपत्र'') द्वारा निर्गत परिपत्रों के साथ पठित कंपनी अधिनियम 2013 तथा उसके अंतर्गत विरचित नियमावली और सेबी (सूचीकरण दायित्व एवं प्रकटीकरण आवश्यकताएं) विनियमावली 2015 के लागू प्रावधानों के अनुपालन के तहत ईजीएम की सूचना में निर्धारितानुसार किया जाएगा।

2) एमसीए परिपत्रों और सेबी परिपत्रों के निबंधनों के अंतर्गत ईजीएम की सूचना जो है वह उन सदस्यों को केवल ईमल द्वारा 19 जनवरी 2022 को प्रेषित कर दी गई है, जिनके ईमेल पते 07 जनवरी 2022 को कंपनी / डिपॉजिटरी प्रतिभागियों के साथ पंजीकृत हैं। सदस्यों को ईजीएम की सूचना की वास्तविक प्रति भेजे जाने की आवश्यकता की जानकारी एमसीए परिपत्रों तथा सेबी परिपत्रों द्वारा वितरित कर दी गई है।

3) ऐसे सदस्यगण जो कट–ऑफ तिथि अर्थात् 03 फरवरी 2022 के अनुसार या तो भौतिक प्रारूप में अथवा अभौतिक प्रारूप में समता अंशों को धारण किए हुए हैं, वे सीडीएसएल के इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग सिस्टम्स के माध्यम से ईजीएम की सूचना में निर्धारितानुसार विशेष व्यवसायों पर इलेक्ट्रॉनिक रूप में अपना

- मतदान कर सकते हैं। समस्त सदस्यों को सूचित किया जाता है किः • ईजीएम की सूचना में निर्धारितानुसार विशेष व्यवसायों का इलेक्ट्रॉनिक माध्यमों से मतदान करने द्वारा लेन-देन किया जाएगा:
- दूरस्थ ई-मतदान अवधि का प्रारंभ 07 फरवरी 2022 को प्रातः 09.00 बजे (आईएसटी) होगा;
- दूरस्थ ई-मतदान अवधि का समापन ०९ फरवरी २०२२ को सायं ०५.०० बजे (आईएसटी) होगा;
- ईजीएम की समयाविध में दूरस्थ ई-मतदान / ई-मतदान के माध्यम से मतदान करने की योग्यता निर्धारित करने की कट-ऑफ तिथि 03 फरवरी 2022 है और यदि कट-ऑफ तिथि के अनुसार एक व्यक्ति जो एक सदस्य नहीं है, उसे इस सूचना को केवल जानकारी उद्देश्यों के लिए समझा/माना
- कोई भी व्यक्ति जो बैठक की सूचना के प्रेषणोपरांत कंपनी का सदस्य बनता है और कट—ऑफ तिथि अर्थात् 03 फरवरी 2022 के अनुसार अंशों का धारण करता है, वह पर ईमेल द्वारा एक अनुरोध भेजकर प्रयोक्ता आईडी और पासवर्ड प्राप्त कर सकता है। हालांकि एक ऐसा व्यक्ति जो ई–वोटिंग के लिए बीटल फाइनेंशियल एण्ड कम्प्यूटर सर्विसेज प्रा. लि. के साथ पहले से ही पंजीकृत है तो वह मतदान करने के लिए विद्यमान प्रयोक्ता आईडी
- व्यक्ति जो ईजीएम की सूचना को भेजने के उपरांत कंपनी के अंशों का उपार्जन करता है और कंपनी का सदस्य बनता है और अंशों का धारण किए हुए है और मतदान के लिए योग्य है, वह ईजीएम की सूचना में उपलब्धानुसार लॉगिन आईडी और पासवर्ड सृजित करने के लिए प्रक्रिया का अनुसरण कर सकता है। यदि ऐसा कोई व्यक्ति ई-मतदान हेत् सीडीएसएल के साथ पहले ही पंजीकृत है तो मतदान करने के लिए विद्यमान प्रयोक्ता आईडी
- श्री मोहित माहेश्वरी, साझीदार अथवा फलिंग हिम श्री अंकुश अग्रवाल, मै. एमएकेएस एण्ड कं. के साझीदार, पेशेवर कंपनी सचिव को एक उचित एव पारदर्शी तरीके यानी विधि के अंतर्गत ई-मतदान प्रक्रिया की जांच करने के लिए जांचकर्ता के रूप में नियुक्त किया गया है।
- सदस्यगण नोट करें किः क) दूरस्थ ई-मतदान मॉड्यूल जो है वह मतदान हेतु उपर्युक्त तिथि एवं समय के उपरांत अयोग्य कर दिया जाएगा और यदि सदस्य द्वारा किस संकल्प पर एक बार मतदान कर दिया जाता है तो सदस्य को बाद में इसे बदलने की अनुमति प्रदान नहीं की जाएगी; ख) सदस्यगण जो ईजीएम से पहले दूरस्थ ई–मतदान द्वारा अपना मतदान कर चुके हैं वे भी ईजीएम में उपस्थित हो सकते हैं परंतु उन्हें पुनः अपना मतदान करने का अधिकार नहीं होगा; ग) इलेक्ट्रॉनिक विधि के माध्यम से मतदान करने के लिए उपलब्ध सुविधा ईजीएम में उपलब्ध कराई जाएगी; तथा घ) एक व्यक्ति जिसका नाम कट-ऑफ तिथि के अनुसार डिपॉजिटरियों द्वारा अनुरक्षित लाभार्थी स्वामियों की पंजिका में अथवा सदस्यों की पंजिका में अभिलेखित है, केवल वे ही दूरस्थ ई-मतदान की सुविधा के साथ-साथ ईजीएम में मतदान करने की सुविधा प्राप्त करने के अधिकारी होंगे
- यदि आपकी ईजीएम में उपस्थित होने और ई–वोटिंग सिस्टम से ई–वोटिंग करने के संबंध में कोई प्रश्न अथवा शिकायत है तो आप हेल्प सेक्शन के अंतर्गत www.evotingindia.com पर उपलब्ध फ्रिक्वेंटली आस्क्ड क्वेशचन्स ("एफएक्यू") और ई-वोटिंग मैन्युअल का संदर्भ ग्रहण कर सकते हैं अथवा helpdesk.evoting@cdslindia.com पर एक ईमेल भेज/लिख सकते हैं अथवा श्री राकेश दलवी (022–23058542/43) से संपर्क कर सकते हैं। ऐसे सदस्यगण जो भौतिक प्रारूप में अंशों का धारण किए हुए हैं और जिनके ई–मेल पते कंपनी/उनके संबंधित डिपॉजिटरी प्रतिभागियों के साथ पंजीकृत नहीं हैं, उनसे अनुरोध है कि शीघ्रातिशीघ्र अपने ईमेल पते पंजीकृत कर लें। इस हेतु सदस्य(यों) द्वारा एक विधिवत ढंग से हस्ताक्षरित पत्र की स्कैंड प्रति भेजी जानी चाहिए, जिसमें उनका नाम, पूर्ण पता, फोलियो नंबर, कंपनी के साथ धारित अंशों की संख्या और साथ में पैन कार्ड की स्वयं–सत्यापित स्कैंड प्रति और निम्नलिखित प्रलेखों में से किसी एक प्रलेख की स्वयं-सत्यापित स्कैंड प्रति होनी चाहिए—आधार कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, मतदाता पत्र, पासपोर्ट, यूटिलिटी बिल अथवा कंपनी के साथ पंजीकृतानुसार सदस्य के पता साक्ष्य के अनुसमर्थन में कोई अन्य सरकारी प्रलेख जो है वह ईजीएम सूचना प्राप्त करने के लिए askus @shalimarpaints.com पर कंपनी को मेल करें। इलेक्ट्रॉनिक / डिमेट प्रारूप में अंशों को धारित करनेवाले सदस्यगण जो हैं वह अपने डिपॉजिटरी प्रतिभागियों के साथ अपने ईमेल पते को अद्यतित कर सकते हैं।

ईजीएम की सूचना में उस विधि से संबंधित अनुदेश समाविष्ट हैं जिसके तहत अंशधारकगण जो हैं वे ईजीएम के समय पर ई-वोटिंग द्वारा अथवा रिमोट ई-वोटिंग के माध्यम से अपना मतदान कर सकते हैं और वीसी/ओएवीएम के माध्यम से ईजीएम से जुड़ सकते हैं। ईजीएम की सूचना जो है वह कंपनी की वेबसाइट www.shalimarpaints.com पर और सेंट्रल डिपॉजिटरी सर्विसेज (इंडिया) लिमिटेड (सीडीएसएल) पर और स्टॉक एक्सचेंजों की वेबसाइट(टों) अर्थात् बीएसई लिमिटेड और नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया www.bseindia.com और www.nseindia.com पर भी उपलब्ध है, जहां–जहां कंपनी के अंश सूचीबद्ध हैं।

निदेशक मंडल के आदेश द्वारा कृते शालीमार पेंट्स लिमिटेड शिखा रस्तोगी दिनांकः 19 जनवरी 2022



**IDFC FIRST** 

Bank

433, भेरा एनक्लेव पश्चिम विहार, नई दिल्ली-110087

सार्वजनिक सूचना

आम जनता को एतदवारा सुचित किया जाता है कि केनरा बँक की **433, भेरा एनक्लेव पश्चिम विहार, नई दिल्ली—110087 शाखा** के साथ कई नॉकर धारकों द्वारा खोले गए हैं और जिनके संबंध में लॉकर समझौते गायब हैं और साथ ही. लॉकर धारक पिछले लॉकर का संचालन नहीं कर

| Б.<br>Н. | लॉकर धारक का नाम | लॉकर नं.   | पता  | लॉकर प्रभारों के<br>बकाया की तिथि | क्काया राशि<br>(रु. में) | अंतिम<br>ऑपरेशन |
|----------|------------------|------------|--|-----------------------------------|--------------------------|-----------------|
| 1        | संदीपिका सहयत    | 2706A00476 | RZG 3/1 निडाल विद्यार, पुरानी पोलिस चौकी के पास,<br>नई दिल्ली-110041 | 1-अप्रैल-14                       | 30714                    | 10-अक्टूबर-12   |
| 2        | अजय सभरवाल       |            | GH 4/246, मीरा बाग, पश्चिम विहार,<br>नई दिल्ती-110087                | 1-अप्रैल-16                       | 58941                    | 10-दिसम्बर-201  |

छ मामलों में लॉकर घारक का स्वर्गवास होने का पता चला है। इस सूचना के द्वारा, एतदद्वारा सभी इच्छ्क व्यक्तियों को यह अधिसूचित किया नाता है कि वे इस सचना के 15 दिन की अवधि के भीतर संबंधित शाखाओं में लॉकर के संबंध में पुष्ट प्रमॉण जैसेकि पासपोर्ट, आधार कार्ड और नेवास का प्रमाण इत्यादि के साथ पधारें, लॉकर की बकाया राशि अदा करें तथा नया लॉकर एग्रीमेंट करें अथवा अपना सामान निकालें। पदि किसी लॉकर के संबंध में कोई जवाब प्राप्त नहीं होता है, तो बैंक लॉकर शुल्क के बकाया की वसूली के लिए आगे की कार्रवाई के लिए विवश स्थानः नई दिल्ली दिनांक: 17.01.2022

# केनरा बैंक

#### स्क्रेप के रूप में वाहन को भौतिक नीलामी के लिये बिक्री सूचना

कता ऋगधारक स जब्त का गई निम्न वाहन बिक्रा के लिय उपलब्ध है। वाहन खरादन के लिय इच्छक व्यक्ति वाहन के भातिक निरक्षिण तथा विव लिये अधोहस्ताक्षरी से सम्पर्क करें। इच्छुक बोलीदाता ''वाहन जो किसी भी प्राधिकरण में पंजीकृत नहीं हैं, इंजिन नं. डी13ए 2729315, चैसिस नं. MA3FXEB1S00186286,'' की खरीद के लिये कोटेशन के रूप में शीर्षांकित महरबंद लिफाफे में अपना प्रस्ताव जमा कर सकते हैं तथा वह 21.1.2022 के 12.00 बजे दोपहर तक अधोहस्ताक्षरी के पास पहुंच जाना चाहिए। मुहरबंद कोटेशनों को 24.1.2022 को 4.00 बजे अप. में प्रस्ताव जमा करने वाले क्रेताओं के समक्ष खोला जायेगा। सफल बोलीदाता को कोटेशन खुलने की तिथि से सात (7) दिनों के भीतर कोट की गई सम्पूर्ण मुल्य का भगतान करना होगा अन्यथा उनके द्वारा जमा की गई धरोहर राशि जब्त कर ली जाएगी तथा वाहन की तत्काल बिक्री कर दी जाएगी। वाहन की बिक्री जैसा है जहां है तथा जो भी जैसा है आधार पर बैंक द्वारा निर्धारित आरक्षित मूल्य से ऊपर की जाएगी। अधोहस्ताक्षरी को बिना कारण बताए किसी या सभी बोलियों को स्वीकार या निरस्त करने का अधिकार है। वाहन का निरीक्षण व्हीकल यार्ड, डीएसए एसोसिएट्स, एच-17, साउथ एक्स्टें. पार्ट-1, नई दिल्ली-110049 में किया जा सकता है।

| नाम एवं खाता का विवरण                                    | वाहन का विवरण  | आरक्षित मूल्य                              | ईएमडी         |
|--|--|--|---------------|
| श्री नीरज, पुत्र सुभाष चन्द<br>(खाता नं. 82817790001505) | मारुति सिएज, व्हीकल नं. किसी भी प्राधिकरण में पंजीकृत नहीं, इंजिन<br>नं. डी 13ए 2729315, चैसिस नं. MA3FXEB1S00186286,<br>निर्माण वर्ष 2015 | रु. 65000<br>(स्क्रैप मूल्य)               | रु.<br>6500/− |
| तिथि: 20.01.2022<br>स्थानो: सोनीपत, हरियाणा              | अधि. अधिकारी, केनरा बैंक एंड डीएस<br>श्री दीपे   | ए एसोसिएट्स, 9910ः<br>श (पार्किंग प्रबंधक) |               |

## कॉटिनेंटल सिक्योरिटिज लिमिटेड

पंजीकृत कार्यालयः फ्लैट नं. 301, मेट्रो प्लाजा, परिवहन मार्ग, जयपुर-302001 ( राजस्थान ), फोन : 0141-2943037, 9414077226 CIN: L67120RJ1990PLC005371, ई: मेल: continentalsecuritieslimited@gmail.com, वेबसाईट: www.continentalsecuritiesltd.com 31 दिसम्बर, 2021 को समाप्त तिमाही के लिए गैर अंकेक्षित वित्तीय परिणामों के विवरणों का सार (ह. लाखों में)

| विवरण  | समाप्त तिमाही | पूववर्ती<br>समाप्त तिमाही | गतवर्ष के<br>अंत में<br>समाप्त तिमाही<br>31.12.2020 | गत वर्ष<br>समाप्ती |  |
|--|---------------|---------------------------|---|--------------------|--|
|  | 31.12.2021    | 30.09.2021                |   | 31.03.202          |  |
|  | गैर अंकेक्षित | गैर अंकेक्षित             | गैर अंकेक्षित                                       | अंकेक्षित          |  |
| परिचालनों से कुल आय ( शुद्ध )<br>कर के बाद शुद्ध लाभ /( हानि )   | 26.55         | 24.22                     | 20.14   | 81.82              |  |
| ( कर, असाधारण और / या असाधारण वस्तुओं से पहले )  | 19.49         | 18.35                     | 10.80   | 47.70              |  |
| कर के पहले शुद्ध लाभ ⁄( हानि ) ( असाधारण और ⁄या असाधारण वस्तुओं के पहले )  | 19.49         | 18.35                     | 10.80   | 47.70              |  |
| कर के बाद शुद्ध लाभ/( हानि ) ( असाधारण और/ या असाधारण वस्तुओं के बाद )<br>अवधि के लिए कुल व्यापक आय एवं अन्य व्यापक आय ( कर के बाद ) | 14.43         | 13.44                     | 8.10  | 34.70              |  |
| के लिए लाभ ⁄हानि   | 14.43         | 13.44                     | 8.10  | 34.70              |  |
| समता अंश पूंजी   | 425.06        | 425.06                    | 425.06  | 425.06             |  |
| रिज़र्व ( पूर्व लेखा वर्ष के तुलन पत्र के अनुसार पूनमूँल्यांकन रिजर्व के अतिरिक्त )<br>आय प्रति शेयर ( रु. 10/- प्रति का )           | 247.09        | 233.68                    | 226.96  | 203.37             |  |
| मूल<br>तरल   | 0.33          | 0.32                      | 0.19  | 0.81               |  |

टिप्पणी : उपरोक्त विवरण सेबी ( सूचीयन तथा अन्य उद्घाटन अपेक्षा ) विनियमन, 2015 के विनियमन 33 के अंतर्गत स्टॉक एक्सचेंज के पास दाखिल की गई समाप्त तिमाही के वित्तीय परिणामों के विस्तृत प्रारूप का सार है। 31 दिसम्बर, 2021 को समाप्त तिमाही के गैर अंकेक्षित विलीय परिणामों का संपूर्ण प्रारूप बाम्बे स्टॉक एक्सचेंज की वेबसाईट (www.bseindia.com) और कंपनी की वेबसाईट (www.continentalsecuritiesItd.com) पर उपलब्ध है। कते कॉटिनेंटल सिक्योरिटिज लिमिटेड

स्थान : जयप्र दिनांक : 19 जनवरी, 2022

राजंश खुंटेटा ( प्रबन्ध निदेशक ) DIN: 00167672

## जीआरएम ओवरसीज लिमिटेड

सीआईएन : L74899DL1995PLC064007

पंजीकृत कार्यालय : 128, प्रथम तल, शिवा मार्केट, पीतमपुरा, उत्तरी दिल्ली-110034 वेबसाइट : www.grmrice.com | ई-मेल : grmrlcel@gmail.com दूरभाष नं. : 011-47330330 | फैक्स नं. : 011-(0180 - 2653673)

## पोस्टल बैलट सूचना

एतद्वारा कम्पनी के सदस्यों को सूचित किया जाता है कि कॉर्पोरेट मामले मंत्रालय द्वारा जारी कोविड-19 के खतरे के कारण नवीनतम सामान्य परिपत्र सं. 39/2020 दिनांक 31 दिसम्बर, 2020 (एमसीए परिपत्र) तथा उसके तहत निर्मित नियमों के साथ पठित समय-समय पर यथासंशोधित कम्पनी (प्रबंधन एवं प्रशासन) नियम, 2014 के नियम 22 के साथ पठित कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा एवं अन्य प्रयोज्य प्रावधानों, यदि कोई हो, एवं अन्य प्रयोज्य कानूनों तथा विनियमों के अनुसार, कम्पनी पोस्टल बैलट सूचना दिनांक 14 जनवरी, 2022 (पोस्टल बैलट सूचना) में निर्धारित विशेष प्रकार्य के परिप्रेक्ष्य में पोस्टल बैलट के माध्यम से अपने सदस्यों का अनुमोदन ग्रहण करेगी। एमसीए परिपत्रों के संदर्भ में तथा कोविड-19 महामारी के खतरे के कारण कम्पनी पोस्टल बैलट सूचना केवल इलेक्ट्रॉनिक प्रारूप में भेजेगी और सहमित अथवा असहमित का सम्पर्क भी केवल रिमोट ई-वोटिंग प्रणाली के माध्यम से सम्पन्न होगा

कम्पनी ने पोस्टल बैलट सूचना केवल उन सदस्यों के पास भेजने का कार्य 19 जनवरी, 2022 को पूरा कर लिया है जिनके नाम एनएसडीएल तथा सीडीएसएल से प्राप्त के अनुसार सदस्यों के रजिस्टर/लाभार्थी स्वामियों की सूची में दर्ज हैं तथा जिनके ई-मेल पते (शुक्रवार), 14 जनवरी, 2022 ('कट-ऑफ तिथि') तक कम्पनी के पास

उपलब्ध हैं। कम्पनी केवल रिमोट ई-वोटिंग के माध्यम से पोस्टल बैलट सूचना में उल्लिखित मामलों पर सामान्य प्रस्तावों के माध्यम से सदस्यों की सहमित चाहती है। पोस्टल बैलट सूचना की एक प्रति कम्पनी की वेबसाइट www.grm

rice.com तथा स्टॉक एक्सचेंज अर्थात बीएसई लिमिटेड की वेबसाइट www.bseindia.com जहां कम्पनी के शेयर सूचीबद्ध हैं, तथा एनएसडीएल की वेबसाइट www.evoting.nsdl.com पर उपलब्ध है। कृपया ध्यान दें कि (i) यथासंशोधित संशोधित नियमों के नियम 20 एवं नियम 22 (ii) सेबी (सूचीबद्धता दायित्व

एवं प्रकटन अपेक्षाएं) विनियम, 2015 के विनियम 44 तथा (iii) एमसीए परिपत्रों के साथ पठित कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा 108, 110 एवं अन्य प्रयोज्य प्रावधानों के अनुपालन में, कम्पनी ने पोस्टल बैलट प्रपत्र के बजाय अपने मतदान इलेक्ट्रॉनिक रूप से करने में सक्षम करने के लिए अपने सदस्यों को केवल रिमोट ई-वोटिंग सुविधा प्रदान की है। कम्पनी ने इलेक्ट्रॉनिक रूप से तथा सुरक्षित ढंग से अपना मतदान करने में समर्थ करने हेतु सदस्यों को रिमोट ई-वोटिंग सुविधा प्रदान करने के लिए एनएसडीएल की सेवाएं ग्रहण की हैं। जिन सदस्यों के शेयर भौतिक/इलेक्ट्रॉनिक प्रारूप में हैं और जिनके ई-मेल पते पंजीकृत नहीं हैं, वे अपने ई-मेल

आईडी कम्पनी के रजिस्ट्रार एवं अन्तरण एजेंट/अपने संबंधित डिपॉजिटरी भागीदारों के साथ पंजीकृत करा लें भौतिक प्रारूप में शेयर धारण करने वाले सदस्यों से निवेदन है कि वे अपने ई-मेल पते सदस्य(यों) द्वारा विधिवत हस्ताक्षरित, अपने नाम, पूर्ण पते, फोलियो नम्बर, कम्पनी के साथ धारित शेयरों की संख्या की स्कैन्ड प्रति तथा पते के प्रमाण के रूप में पैन कार्ड, आधार कार्ड या किसी अन्य सरकारी दस्तावेज, जो कम्पनी के साथ पंजीकृत है, की स्वप्रमाणित स्कैन्ड प्रति यथाशीघ्र कम्पनी के पास lnvestor.grm@gmail.com पर ई-मेल द्वारा भेज दें ताकि वे पोस्टल बैलट सूचना प्राप्त कर सकें। जिन सदस्यों के शेयर डीमैट प्रारूप में हैं वे अपने ई-मेल पते अपने डिपॉजिटरी भागीदारों के साथ अपडेट करा सकते हैं। पोस्टल बैलट सूचना में रिमोट ई-वोटिंग द्वारा सदस्यों को अपना मतदान करने की रीति से संबंधित समस्त निर्देश दिये गये हैं।

मैसर्स देवेश अरोड़ा एण्ड एसोसिएट्स, कम्पनी सचिव को निष्पक्ष एवं पारदर्शी ढंग से पोस्टल बैलट प्रक्रिय संचालित करने हेतु संवीक्षक नियुक्त किया गया है। रिमोट ई-वोटिंग 20 जनवरी, 2022 को 9.00 बजे पूर्वा. से प्रारम्भ होगी और शुक्रवार, 18 फरवरी, 2022 को 5.00 बजे अप. समाप्त होगी। 18 फरवरी, 2022 को 5.00 बजे अप. के उपरान्त रिमोट ई-वोटिंग की अनुमित नहीं दी जायेगी।

यदि कोई सदस्य 18 फरवरी, 2022 को 5.00 बजे अप. के पश्चात रिमोट ई-वोटिंग के माध्यम से अपना मतदान करता है तो रिमोट ई-वोटिंग को वैध मत नहीं माना जायेगा और यह माना जायेगा कि सदस्य का कोई उत्तर नहीं प्राप्त हुआ है।

पोस्टल बैलट के परिणाम शनिवार, 19 फरवरी, 2022 को या इससे पूर्व घोषित किये जायेंगे। संवीक्षक की रिपोर्ट सिंहत उपर्युक्त परिणाम कम्पनी की वेबसाइट www.grmrice.com तथा एनएसडीएल की वेबसाइट पर परिणामों की घोषणा के तुरन्त बाद प्रदर्शित किया जायेगा। कम्पनी तत्काल ही इन परिणामों को स्टॉक एक्सचेंजों के पास भी अग्रसारित करेगी जहां कम्पनी के शेयर सूचीबद्ध हैं।

ई-वोटिंग से सम्बन्धित कोई पूछताछ या शिकायत के लिए एनएसडीएल से ई-मेल द्वारा evoting@nsdl.co.in

पर अथवा दुरभाष : 1800 224430 या 1800 1020990 पर सम्पर्क करें। सदस्य कम्पनी के पास निदेशक मंडल के आदेशानुसार

कृते जीआरएम ओवरसीज लिमिटेड

बलवीर सिंह (कम्पनी सचिव)

Investor.grm@gmail.com पर भी लिख सकते हैं।

दिनांक : 19.01.2022

स्थान : नई दिल्ली

www.readwhere.com

कीनकोर के पस बिन कोई कारण काए किसी अक्षव सभी निविदाओं को निरस्त करने का अधिकार सरक्षित है। पर्ण विकास www.tenderwizard.com/CCIL, पर लॉन जॉन करें।

अनुबंध बाध्यताकारी(रियों) / कानूनी कुल बकाया देयराशियां (रु.) निम्न मांग सूचना की

दिनांक : 20.01.2022 स्थान : दिल्ली